

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर 2015—कार्तिक 28, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2015

फा. क्र. 17 (ई) 261-2015-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला झाबुआ (म. प्र.) हेतु 24—रतलाम (अजजा) संसदीय एवं 171—देवास विधानसभा के उपचुनाव 2015 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को उपचुनाव निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश
लोकसभा उप निर्वाचन 2015, 24—रतलाम
सेक्टर ऑफिसर/ज़ोनल मजिस्ट्रेट/उड़न दस्ता टीम/ स्थायी निगरानी दल में लगे अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर	पद नाम	कार्यालय का नाम	वि.समा क्षेत्र क्रमांक	सौपा गया दायित्व	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ दिया जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मायाराम पाटीदार मो. 9993449747	परियोजना यंत्री	कार्यापालन यंत्री पी.आइ.यु. लो.नि.विभाग झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
2	डॉ. गोपाल मूरिया मो. 9425943850	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
3	डॉ. एस. के. धुरिया	पशु चिकित्सा सहायक शल्य	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
4	श्री जवसिंह मूरिया मो. 9893401467	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
5	श्री मोहनसिंह मूरिया मो. 9425705668	अनुविभागीय अधिकारी कृषि	अनुविभागीय अधिकारी कृषि अनुभाग झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
6	श्री राजेन्द्र परमार मो. 9406611465	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
7	श्री बी.एस. बघेल मो. 9755057819	सहायक संचालक	कार्यालय उप संचालक कृषि झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
8	श्री राजु बघेल मो. 9981379033	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
9	प्रो. सुनील कुमार उजले मो. 9826713447	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
10	श्री संतोषसिंह मोर्य मो. 9893671952	सहायक संचालक कृषि	कार्यालय उप संचालक कृषि झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
11	श्री रकसिंह अजनार मो. 9424061661	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
12	श्री वीरसिंह मैडा मो. 9424817300	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
13	श्री दिलीप कुमार राठौर मो. 9424064744	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
14	प्रो. कालूराम कानूडे मो. 9826074918	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
15	डॉ. विनोद कुमार शुक्ला मो. 9425102969	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
16	श्री ओमप्रकाश हरौड मो. 9425967562	खेलकूद अधिकारी	कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
17	श्री गौतमसिंह तडवी मो. 9424792428	उप वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
18	श्री रंजीतसिंह परमार मो. 9893145137	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	कार्यालय वाणिज्यिक कर झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
19	श्री विनोद अग्निहोत्री मो. 9424064354	प्राचार्य	बा० उ० मा० वि० रानपुर	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
20	डॉ. आर.के. यादव मो. 9425711222	विषय वस्तु विशेषज्ञ	कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
21	श्री जगदीश मोर्य मो. 9893967135	विषय वस्तु विशेषज्ञ	कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
22	श्री वी.एस. निगम मो.	एस.डी.ओ. (फारस्ट)	तेन्दुपल्ला झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये

क्र.	अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर	पद नाम	कार्यालय का नाम	वि.समा क्षेत्र क्रमांक	सौपा गया दक्षिणत्व	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दृष्टाधिकारी की शक्तियाँ दिया जाना प्रस्तावित है।
23	डॉ. वी.के.सिंह मो. 8349292493	विषय वस्तु विशेषज्ञ	कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
24	श्री भारतसिंह मो. 09993731539	खण्ड शिक्षा अधिकारी	खण्ड शिक्षा अधिकारी झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
25	श्री पी.के. सोनी मो. 9425909978	कार्यपालन यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्रीआर.ई.एस. झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
26	श्री जितेन्द्र परमार मो. 9993776360	सहायक भू-जलविद	जिला भू-जल सर्वेक्षण ईकाई झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
27	श्री सुरसिंह रावत मो. 9893330538	सहायक संचालक कृषि	कार्यालय उप संचालक कृषि झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
28	श्री रतन लाल मूरिया मो. 9977868629	सहायक संचालक	प्रबंधक हथकरघा झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
29	श्री एस.एस. तिवारी मो. 9329498359	उप संचालक	उप संचालक पशुचिकित्सा विभाग झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
30	श्री एन.एस. मण्डलौई मो. 9617515250	संभागीय परियोजना यंत्री	लोक निर्माण विभाग झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
31	श्री छगनसिंह चौहान मो. 9424061657	सहायक प्राध्यापक	कन्या महाविद्यालय झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
32	श्री एस.एस. निंगवाल मो. 9826955478	प्राचार्य	आई.टी.आई. झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
33	श्री भेरूसिंह बघेल मो. 9893795949	सहायक प्राध्यापक	कन्या महाविद्यालय झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
34	श्री दिनेश कटारा मो. 9589568320	सहायक प्राध्यापक	कन्या महाविद्यालय झाबुआ	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
35	श्री कन्हैलाल मूरिया मो.9407405551	प्राचार्य,	उ.मा.वि. कल्याणपुरा	193	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
36	डॉ. मनिष चौहान मो.8085825916	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	उप संचालक पशुचिकित्सा विभाग झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
37	श्री लालचंद बिलवाल मो.7898780502	सांख्यिकीय अधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
38	डॉ. एम.एल. परमार	पशु प्रजनन कार्यम	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
39	श्री पाटीदार मो. 9685728735	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी मेघनगर	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
40	डॉ. दिलीप निनामा मो.9669418594	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
41	श्री एन.एस. चौहान मो. 9425435979	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्रीक सेवा क्र. 2 झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
42	श्री रामबरन सिंग जनोरीया मो.9691001855	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
43	श्री एम.एल. ग्वाला मो.8959466919	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्रीक सेवा क्रमांक 2 झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
44	श्री बंशी लाल डावर मो.9407404252	सहायक प्राध्यापक	शा. महाविद्यालय थारंदा	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
45	डॉ. के.एल. डामोर मो. 9993818138	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
46	डॉ. अनिल कुमार मैडा मो.8085203554	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
47	श्री कमल कुवाल मो. 787950696	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
48	डॉ. सुरेश कुमार गौड मो.9425992222	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये

क्र.	अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर	पद नाम	कार्यालय का नाम	वि.समा क्षेत्र क्रमांक	सौपा गया दायित्व	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक शक्तियाँ दिया जाना प्रस्तावित है।
49	डॉ. अमरसिंह दिवाकर मो.9926036718	पशु पालन विस्तार अधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
50	श्री एस.एस.सोलंकी मो. 9424008988	जिला शिक्षा अधिकारी झाबुआ	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
51	श्री बी.एल. गारवाल मो.7879624321	अनुविभागीय अधिकारी कृषि परियोजना अधिकारी	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि अनुसंधान थादला आय.सी.डी.एस. रानापुर	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
52	श्री निर्भयसिंह पटेल मो. 9893892583	प्रबंधक	कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
53	श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार.मो. 9826289034	सहायक कृषि यंत्री	कार्यालय सहायक कृषि यंत्री झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
54	श्री सतीश बावने मो.9425338896	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
55	श्री लालसिंह चारेल मो.9425459823	सचिव	कृषि उपज मण्डी झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
56	श्री उत्सवलाल गुप्ता मो.9993249809	जिला प्रबंधक	जिला ग्रामीण आजीविका मिशन झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
57	श्री आशीष शर्मा मो. 8349901500	खण्ड शिक्षा अधिकारी	खण्ड शिक्षा कार्यालय रानापुर	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
58	श्री जनार्दन तिवारी मो.9893760350	महाप्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना झाबुआ	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
59	श्री आर.एस. तोमर मो. 9425136294	प्राचार्य,	हाईस्कूल माण्डली	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
60	श्री बाबुसिंह नायक, मो. 834908151	खण्ड शिक्षा अधिकारी	खण्ड शिक्षा कार्यालय थादला	194	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
61	श्री दयाराम सोलंकी मो.8120828662	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय पेटलावद	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
62	डॉ. जयप्रकाश पाटीदार मो.9893756560	सहायक संचालक कृषि	कार्यालय उप संचालक कृषि झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
63	श्री हीरारसिंह चौहान मो.9407404866	विषय वस्तु विशेषज्ञ	कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
64	डॉ. महेन्द्रसिंह मो.9993970987	पशु चिकित्सा सहायक	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
65	डॉ. रजनीश शर्मा मो.7415320038	प्राचार्य	कन्या उ०मा०वि० पेटलावद	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
66	श्री योगेन्द्र प्रसाद मो. 9425972074	परियोजना संचालक आत्मा	कृषि विभाग झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
67	श्री निर्भय सिंह नरगेश मो. 9179693345	डीपीओ	महिला बा.वि. झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
68	श्री आर.एस. जमरा मो. 9993109030	महिला सशक्तिकरण अधिकारी	कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
69	श्री राघुसिंह बघेल मो.	रोजगार अधिकारी	कार्यालय जिला रोजगार झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
70	श्री के.एस. ठाकुर मो. 9425485971	प्राचार्य	उ.मा.वि. करवड़	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
71	श्री मनोज कुमार खत्री मो 9406605391	सहायक प्रबंधक	सहायक प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
72	श्री ए.के.बर्वे मो. 9425914561	प्राचार्य	उ.मा.वि. रायपुरिया	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
73	श्री सुमन कुमार वाण्य मो. 9425413613.			195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये

क्र.	अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर	पद नाम	कार्यालय का नाम	विसमा क्षेत्र क्रमांक	सौपा गया दायित्व	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है।
74	श्री एच.के. भट्ट मो. 9826075976	सहायक प्रबंधक	सहायक प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
75	श्री आर.सी. पाटीदार मो. 9826066015	सहायक प्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
76	श्री आर.सी. देशवाली मो. 9669062292	फील्ड ऑफिसर	रेशम केंद्र उन्नाई, पेटलावद	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
77	श्री राजेन्द्र माथुर मो. 9425093975	सहायक परियोजना	परियोजना प्रशासक आय.टी.डी.पी.	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
78	श्री उषा काग मो. 9926041052	अनुविभागीय कृषि अधिकारी	कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी उप संभाग थांदला	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
79	श्री विजयसिंह मो. 9926487245	सहायक संचालक	कार्यालय सहायक संचालक उद्यानिकी झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
80	श्री पीटर रेबेलो मो. 9926506503	प्राचार्य	बालक उ.मा.वि. पेटलावद	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
81	श्री नारायण बारिया मो. 9425438612	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
82	श्री शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल मो. 9981219319	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री माही परियोजना पेटलावद	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
83	श्री श्यामलाल शर्मा मो. 9826433164	सहायक यंत्री	माही परियोजना पेटलावद	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
84	श्री जगदीश चन्द्र सोनी मो. 9425092541	सहायक यंत्री	माही परियोजना पेटलावद	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
85	श्री प्रकाशचन्द्र सांकला मो. 9425487061	सहायक यंत्री	माही परियोजना पेटलावद	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
86	श्री जितेन्द्र मावी मो. 9424008706	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
87	श्री बबलू सातनकर मो. 9425065872	उप पंजीयक	कार्यालय उपयुक्त सहकारिता झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
88	श्री ओ.पी. वर्मा मो. 9926488512	सहायक संचालक	कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
89	श्री रंगारी मो. 9827355742	प्रबंधक	नागरिक आपूर्ति झाबुआ	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
90	श्री चंद्रप्रकाश तिवारी मो. 9993045919	विकास खण्ड अधिकारी	खण्ड शिक्षा अधिकारी रामा	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
91	श्री हेमराज यादव मो. 9406648385	प्राचार्य	बालक उ.मा.वि. बामनिया	195	Sector Officer/Zonal M.	संपूर्ण जिले के लिये
92	श्री अमनसिंह मूरिया मो. 9407428029	उपयंत्री	जल संसाधन उप संभाग झाबुआ	193	Static Surveillance Team	संपूर्ण जिले के लिये
93	श्री मोहनसिंह चौहान मो. 8989460388	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षण	उपायुक्त सहकारी झाबुआ	193	Static Surveillance Team	संपूर्ण जिले के लिये
94	श्री आर.एस. जाधव मो. 9755517267	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी झाबुआ	194	Static Surveillance Team	संपूर्ण जिले के लिये
95	श्री विनोद कुमार चौहान मो. 9407104060	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन झाबुआ	194	Static Surveillance Team	संपूर्ण जिले के लिये
96	श्री थानसिंह बामनिया मो. 9907599210	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी झाबुआ	195	Static Surveillance Team	संपूर्ण जिले के लिये
97	श्री बी.एम. गामड मो. 9926630552	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	अनुविभागीय कृषि अधिकारी थांदला	195	Static Surveillance Team	संपूर्ण जिले के लिये
98	श्री दिलीप जोशी मो. 9425102120	बीआरसी	खण्ड स्त्रोत समन्वयक थांदला	195	Static Surveillance Team	संपूर्ण जिले के लिये
99	श्री धर्मोन्द्रसिंह तोमर मो. 9425101406	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं क्र.2 झाबुआ	193	Static Surveillance Team	संपूर्ण जिले के लिये

क्र.	अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नंबर	पद नाम	कार्यालय का नाम	वि.समा. क्षेत्र क्रमांक	सौपा गया दफतिल	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दृष्टिधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है।
100	श्री राजेन्द्र गुप्ता, मो.नं. 9424088656	उपयंत्री.	मनरेगा जनपद पंचायत रानापुर	193	Flying Squad	संपूर्ण जिले के लिये
101	श्री मोहनसिंह सिसोदिया मो. 9893737260	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं झाबुआ	193	Flying Squad	संपूर्ण जिले के लिये
102	श्री जे.सी. गर्ग मो. 9425487203	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी झाबुआ	194	Flying Squad	संपूर्ण जिले के लिये
103	श्री नरेन्द्र प्रजापत मो. 9425102258	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं झाबुआ	194	Flying Squad	संपूर्ण जिले के लिये
104	श्री मो.ईस्माईल सिद्दिकी मो.9926668338	उपयंत्री	जल संसाधन उप संभाग झाबुआ	194	Flying Squad	संपूर्ण जिले के लिये
105	श्री श्रीपाल जैन मो.9827056223	उपयंत्री.	जल संसाधन उप संभाग पेटलावद	195	Flying Squad	संपूर्ण जिले के लिये
106	श्री मिश्रीलाल गांगुले मो.9425966738	उपयंत्री	माही परियोजना पेटलावद	195	Flying Squad	संपूर्ण जिले के लिये
107	श्री नारायण सिंह मो.9981811145	उपयंत्री	माही परियोजना पेटलावद	195	Flying Squad	संपूर्ण जिले के लिये

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला झाबुआ (म.प्र.).